



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 5 पटना, बुधवार, 14 माघ 1937 (श0)  
3 फरवरी 2016 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

i ; kbj .k , oa ou foHkx

अधिसूचनाएं

21 जनवरी 2016

सं० भा०स्था० (02)-17/2006 (खण्ड-I)-251/प०व०—श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा०व०से० (2000) को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक— 20019/01/2000—IFS(II), दिनांक 18.11.2002 में निहित प्रावधान के आलोक में भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि (Junior Administrative Grade) वेतनमान (15600-39100/ग्रेड पे-7600) में दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

2. इस आदेश का उनके आपसी वरीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश झा, उप—सचिव।

21 जनवरी 2016

सं० भा०स्था० (02)-17/2006 (खण्ड-I)-252/प०व०—भारतीय वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों के आवंटन वर्ष में हुए संशोधन के आलोक में उन्हें पूर्व के आवंटन वर्ष के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-3803, दिनांक 23.12.2010 द्वारा दी गयी कनीय प्रशासनिक कोटि (Junior Administrative Grade) में प्रोन्नति की तिथि को संशोधित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से कनीय प्रशासनिक कोटि वेतनमान (15600-39100/ग्रेड पे-7600) में प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	कनीय प्रशासनिक कोटि में प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
i	श्री रविशंकर कुमार	1999	01.01.2008
ii	श्री ललन प्रसाद सिंह	2000	01.01.2009
iii	श्री संजय कुमार सिन्हा	2000	01.01.2009
iv	श्री अभय कुमार	2001	01.01.2010

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3803, दिनांक 23.12.2010 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश झा, उप—सचिव।

21 जनवरी 2016

सं० भा०स्था० (02)-17/2006 (खण्ड-I)-254/प०व०—श्री अभय कुमार, भा०व०से० (2001) को पूर्व के आवंटन वर्ष 2000 के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-2187, दिनांक 17.07.2008 द्वारा दिनांक 01.01.2004 के प्रभाव से वरीय वेतनमान में दी गयी प्रोन्नति तिथि को वर्तमान आवंटन वर्ष 2001 के आलोक में संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2005 के प्रभाव से भारतीय वन सेवा के वरीय वेतनमान अपुनरीक्षित (₹10000-15200/-) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-2187, दिनांक 17.07.2008 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश झा, उप—सचिव।

okf.kT; &dj foHkkx

vf/kl ipuk, a  
27 tuojuh 2016

1. 6@fo0i=k0&24&45@2008—352/वा0कर—श्री राजेश कुमार, वाणिज्य—कर उपायुक्त, प्रभारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य—कर उपायुक्त (प्रभारी), पटना विशेष अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

1. 6@ fo0i=k0&24&45@2008—353/वा0कर—श्री श्रवण कुमार, वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

i ; kbj .k , oa ou foHkkx

'kf) &i =

21 जनवरी 2016

सं० भा०स्था० (02)—17/2006 (खण्ड— I)—253/प०व०—श्री सी०पी० खण्डूजा, भा०व०से० (1989) एवं श्री अरविन्दर सिंह भा०व०से० (1995) को मुख्य वन संरक्षक कोटि में दी गयी प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या—3316 एवं 3317 दिनांक 19.10.2015 में अंकित मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान (37000—67000/ग्रेड पे—10000) के स्थान पर वेतनमान (37400—67000/ग्रेड पे—10000) पढ़ा जाय।  
शेष यथावत रहेगा।

आदेश से,  
रत्नेश झा, उप—सचिव।

#### जल संसाधन विभाग

##### अधिसूचनाएं

25 जनवरी 2016

सं० 1/पी०एम०सी०/विविध/955/2014-62—जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-584 दिनांक 14.07.2014 द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा कोशी बांध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है। विभागीय अधिसूचना संख्या-662 दिनांक 19.08.2015 द्वारा जाँच समिति को द्वितीय अवधि विस्तार स्वीकृत कर दिनांक 13.01.2016 तक प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया गया था। समिति द्वारा पुनः समय वृद्धि की मांग को स्वीकार करते हुए, जाँच समिति को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अगले छः माह (13.07.2016 तक) के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त समय सीमा के अन्तर्गत समिति अपना कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)।

25 जनवरी 2016

सं० 1/पी०एम०सी०/विविध/955/2014-63—जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-584 दिनांक 14.07.2014 द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा कोशी बांध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है। विभागीय अधिसूचना संख्या-661 दिनांक

19.08.2015 द्वारा जाँच समिति को द्वितीय अवधि विस्तार स्वीकृत कर दिनांक 13.01.2016 तक प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया गया था। समिति द्वारा पुनः समय वृद्धि की मांग को स्वीकार करते हुए, जाँच समिति को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अगले छः माह (13.07.2016 तक) के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त समय सीमा के अन्तर्गत समिति अपना कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)।

वित्त विभाग

अधिसूचना  
25 जनवरी 2016

सं० एम-4-26/2013-653/वि०—राज्य के बोर्ड/निगम के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए Centage की राशि चार्ज किया जाता है किन्तु ऐसा पाया गया है कि राज्य के विभिन्न बोर्ड/निगमों के द्वारा अलग-अलग दरों पर निर्माण कार्यों के लिए राशि Centage के रूप में चार्ज किया जा रहा है।

समीक्षोपरान्त Centage का दर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है:-

क्र०	कार्य की लागत	Centage का दर
1.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये तक	7 %
2.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5%
3.	परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5% + 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1%

(ii) वर्तमान में Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं होगी।

(iii) Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगा न कि संशोधित प्राक्कलन पर।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रवि मित्तल, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>